

परिशिष्ट I

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवारों को 28 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक बैंक की वेबसाइट अर्थात www.rbi.org.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग्रेड बी (सीधी भर्ती)-सामान्य तथा ग्रेड बी (सीधी भर्ती) अथवा आनिअवि/सांसूप्रवि (जो भी हो) दोनों पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे दोनों के लिए अलग-अलग लिफों से आवेदन करें तथा दोनों के लिए शुल्क का भुगतान करें।

(क) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्वापेक्षा:

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित तैयारी करनी चाहिए—

- (i) निम्नलिखित को स्कैन करें:
 - फोटोग्राफ (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)
 - हस्ताक्षर
 - बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
 - एक हस्तलिखित घोषणा (पाठ नीचे दिया गया है)

यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ निम्नलिखित विनिर्दिष्टताओं का पालन करते हों।

- (ii) अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं होंगे।
- (iii) बाएं हाथ के अंगूठे का निशान उचित रूप से स्कैन किया गया हो। यह फैला हुआ न हो। (यदि किसी उम्मीदवार का बायां अंगूठा न हो तो वे आवेदन करने के लिए दाएं अंगूठे का प्रयोग करें।)
- (iv) हस्तलिखित घोषणा के लिए पाठ निम्नानुसार है-

"I, _____ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."

(जिसका अर्थ है - "मैं, _____ (उम्मीदवार का नाम) एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन फार्म में दी गई सभी जानकारी सही, सत्य तथा वैध है। जब भी आवश्यकता होगी मैं इनके समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।")

- (v) उक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की लिखाई में तथा केवल अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। यदि यह किसी और द्वारा लिखी तथा किसी अन्य द्वारा अपलोड की जाएगी अथवा किसी अन्य भाषा में होगी तो आवेदन को अवैध समझा जाएगा। (दृष्टिबाधित उम्मीदवार जो स्वयं नहीं लिख सकते वे घोषणा टाईप करवा लें तथा टाईप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं तथा विनिर्दिष्ट किए अनुसार दस्तावेज़ अपलोड करें।)
- (vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का ऑनलाइन भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक ब्यौरे/दस्तावेज़ तैयार रखें।
- (vii) उम्मीदवार के पास एक वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए जिसे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक द्वारा बुलावा पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। यदि उम्मीदवार के पास वैध ई-मेल आईडी न हो तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उन्हें अपना नया ई-मेल आईडी बना लेना चाहिए तथा मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेना चाहिए तथा इस ईमेल एकाउंट तथा मोबाइल नंबर को सक्रिय रखा जाना चाहिए।
- (viii) बोर्ड ईमेल/एसएमएस के अलावा किसी अन्य तरीके से कोई सूचना नहीं भेजता है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में ई-मेल आईडी में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

- (i) दिनांक 01 जनवरी 2021 को पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि पहले वे बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in>Opportunities @ RBI>Current Vacancies>Vacancies में यूआरएल “Officers in Gr. ‘B’ (DR) General/DEPR/DSIM” पर जाएं तथा [ऑनलाइन आवेदन](#) भरने के लिए विज्ञापन पृष्ठ पर दिए हाइपरलिंक “[Online Application form](#)” पर क्लिक करें। यह उम्मीदवार को ऑनलाइन पंजीकरण के पृष्ठ पर ले जाएगा।
- (ii) उम्मीदवारों को अपने आधारभूत ब्यौरे भरने होंगे तथा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटोग्राफ, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
- (iii) आवेदन के पंजीकरण के लिए “Click here for New Registration” टैब का चयन करें तथा नाम, संपर्क ब्यौरे तथा ई-मेल आईडी भरें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड तैयार किया जाएगा तथा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उम्मीदवार अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड लिखकर रख लें। अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड दर्शाता हुआ एक ई-मेल तथा एसएमएस भी भेजा जाएगा।

- (iv) यदि उम्मीदवार एक ही बार में आवेदन फॉर्म पूरा न भर पाए तो वे "SAVE AND NEXT" टैब का चयन करके पहले से भरे हुए डेटा को सेव (SAVE) कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में भरे हुए ब्यौरों की जांच तथा यदि आवश्यक हो तो इन्हें संशोधित करने के लिए "SAVE AND NEXT" सुविधा का उपयोग करें। दृष्टिहीन उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें तथा ब्यौरों की जांच करें/करवाएं ताकि प्रस्तुत करने से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्यौरे सही हैं।
- (v) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ब्यौरे ध्यानपूर्वक भरें तथा ऑनलाइन आवेदन में भरे हुए ब्यौरों की जांच स्वयं करें क्योंकि "FINAL SUBMIT BUTTON" पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा/किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) आवेदन में उम्मीदवार अथवा उनके पिता/पति आदि के नाम की सही वर्तनी लिखें जैसा की फोटो पहचान प्रमाण/प्रमाणपत्र/अंक पत्रक में दी गई है। इसमें परिवर्तन/फेर बदल पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- (vii) 'Validate your details' तथा 'Save & Next' बटन पर क्लिक करके अपने ब्यौरों की पुष्टि करें तथा आवेदन को सेव करें।
- (viii) फोटोग्राफ, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा तथा हस्ताक्षर की स्कैनिंग तथा अपलोड करने के लिए दिए गए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उम्मीदवार दस्तावेजों की स्कैनिंग तथा अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें।
- (ix) इसके बाद उम्मीदवार आवेदन के अन्य ब्यौरे भर सकते हैं।
- (x) अंतिम रूप से प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रीव्यू टैब पर क्लिक करें तथा संपूर्ण आवेदन की जांच करें।
- (xi) यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संशोधित करें तथा जांच करके यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर तथा आपके द्वारा भरे गए अन्य ब्यौरे सही हैं FINAL SUBMIT पर क्लिक करें।
- (xii) 'Payment' टैब पर क्लिक करें तथा भुगतान करें।
- (xiii) 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
- (xiv) ऑनलाइन आवेदन को सही तरीके से भरने के लिए केवल उम्मीदवार उत्तरदायी होंगे। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार द्वारा की गई गलतियों के कारण अवैध आवेदनों के मामले में जमा हुए आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार की वापसी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (xv) अंतिम समय की हडबडी से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान तथा ऑनलाइन पंजीकरण शीघ्रतिशीघ्र करें।

(xvi) अंतिम दिन उक्त कारणों अथवा बैंक के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से उम्मीदवार के आवेदन जमा करने में असमर्थ होने के लिए बोर्ड कोई दायित्व नहीं लेता।

(ग) आवेदन शुल्क/ सूचना प्रभार के भुगतान का तरीका: उम्मीदवारों को अपेक्षित शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान केवल ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा:

- (i) आवेदन फॉर्म भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है तथा अनुदेशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
- (ii) भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टरकार्ड/माइक्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/ मोबाईल वॉलट द्वारा किया जा सकता है।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपनी भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने के बाद कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें, दो बार भुगतान किए जाने से बचने के लिए Back या Refresh बटन न दबाएं।
- (iv) लेनदेन (भुगतान कार्य) सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-रसीद तैयार होगी।
- (v) 'ई-रसीद' तैयार न होना असफल भुगतान को दर्शाता है। भुगतान असफल होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड का प्रयोग करके पुनः लॉग इन करें तथा भुगतान प्रक्रिया दोहराएं।
- (vi) उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे ई-रसीद तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें। कृपया नोट करें कि यदि यह तैयार नहीं होते हैं तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं होता।
- (vii) क्रेडिट कार्ड प्रयोक्ताओं के लिए: सभी प्रभार भारतीय रुपये में दिए गए हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर इसे आपकी स्थानीय मुद्रा में बदल देगा।
- (viii) आपके आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृपया आपका लेनदेन पूरा होने पर ब्राउजर विंडो को बंद करें।
- (ix) शुल्क के भुगतान के बाद शुल्क भुगतान के ब्यौरे सहित आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने की सुविधा दिनांक 28 फरवरी 2021 तक उपलब्ध होगी।

(घ) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन तथा अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के लिए अपेक्षित है कि उसके पास, नीचे दिए गए विशेष विवरण के अनुसार, उसके फोटो तथा हस्ताक्षर का स्कैन किया गया (डिजिटल) प्रतिरूप (इमेज) हो।

फोटोग्राफ इमेज : (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)

- आपका फोटोग्राफ नवीनतम और पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो होना चाहिए।

- यह सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन हो तथा हलके रंग की अपेक्षाकृत सफेद रंग की पृष्ठभूमि में हो।
- शांत चेहरे से सीधे कैमरे की तरफ देखें।
- यदि फोटो धूप में लिया जा रहा हो तो इस प्रकार फोटो खींचें कि सूर्य आपके पीछे की ओर हो अथवा खुद को छाया में रखते हुए फोटो खिंचवाएं ताकि आपकी आंखें बंद नहीं हों और परछाई भी नहीं बने।
- यदि फ्लैश का प्रयोग किया हो तो 'रेड आई' नहीं आने पाए।
- यदि आप चश्मा लगाते हों तो ध्यान रखें कि कोई परावर्तन न हो तथा चश्मे के लेन्स से आपकी आंखें साफ दिखाई दें।
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे वाले फोटो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक वस्त्रों की अनुमति है लेकिन इससे आपका चेहरा ढका नहीं होना चाहिए।
- आयाम 200×230 पिक्सेल (अपेक्षित)।
- फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी के बीच रहे।
- यह सुनिश्चित कर लें कि स्कैन की हुई इमेज फाइल का आकार 50KB से ज्यादा नहीं हो। यदि फाइल का आकार 50 KB से अधिक बन रहा हो तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान DPI रिजॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि के लिए स्कैनर की सेटिंग बदल लें।

हस्ताक्षर, बाएं हाथ का अंगूठा तथा हस्तलिखित घोषणा की इमेज:

- आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही से हस्ताक्षर करें।
- आवेदक सफेद कागज पर काली अथवा नीली स्याही से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएं।
- आवेदक घोषणा सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेज़ी में स्पष्ट रूप से लिखें।
- हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा आवेदक की स्वयं की हो। कोई अन्य व्यक्ति ये न करे।
- हस्ताक्षर का प्रयोग बुलावा पत्र तथा जहां कहीं भी आवश्यक होगा किया जाएगा।
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक अथवा बुलावा पत्र अपलोड किए गए हस्ताक्षर से नहीं मिलता तो आवेदक को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
- आयाम 140 × 60 पिक्सेल (अपेक्षित)।
- हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के लिए फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच रहे।
- हस्तलिखित घोषणा के लिए फाइल का आकार 20-50 केबी के बीच रहे।
- यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20 केबी अथवा 50 केबी (हस्तलिखित घोषणा के लिए) से अधिक न हो।
- अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

दस्तावेज़ों की स्कैनिंग :

- स्कैनर को न्यूनतम 200 dpi (डॉट्स पर इंच) के रेज़ोल्यूशन पर रखें।
- कलर को True Color पर रखें।
- फाइल का आकार उपर्युक्तानुसार रहे ।
- स्कैनर में फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर /बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा की इमेज पर एकदम किनारे पर crop करें, फिर अपलोड एडिटर में crop का प्रयोग कर इमेज को (ऊपर बताए अनुसार) अंतिम आकार दें ।
- इमेज फाइल को JPG या JPEG फॉर्मेट में तैयार करें । उदाहरण के लिए फाइल का नाम : image01.jpg या image01.jpeg होना चाहिए। इमेज के आकार को फोल्डर फाइल की लिस्टिंग द्वारा या फाइल इमेज के आइकॉन पर माउस ले जा कर देख सकते हैं।
- MS Windows/MsOffice का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार MS Paint या MS Office Picture Manager का प्रयोग कर दस्तावेज़ को आसानी से क्रमशः 50केबी (फोटोग्राफ तथा हस्तलिखित घोषणा) और 20KB (हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान) के.jpeg फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। दस्तावेज़ स्कैन करके बनी हुई किसी भी फॉर्मेट की फाइल को File menu में 'Save As' विकल्प का प्रयोग करके आसानी से .jpg फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है तथा Image मेन्यु में crop तथा resize विकल्प का प्रयोग करके फाइल आकार 50KB (फोटोग्राफ तथा हस्तलिखित घोषणा) तथा 20KB (हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान) से कम किया जा सकता है (पिक्सेल साइज के लिए कृपया उपर्युक्त प्वाइंट (i) तथा (ii) देखें) । अन्य फोटो एडिटर्स में भी ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं ।
- यदि फाइल का आकार और फॉर्मेट ऊपर बताए अनुसार नहीं हुआ तो error message दिखाई देगा ।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को उनकी फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने का तरीका:

- फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक रहेंगे।
- संबंधित लिंक अर्थात "Upload Photograph / Signature/left thumb impression/hand written declaration" पर क्लिक करें।

- Browse करें और जहां फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा की स्कैन प्रति Save करके रखी है वह Location चुने।
- फाइल पर क्लिक करके उसका चयन करें।
- 'Open/Upload' बटन पर क्लिक करें।

यदि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान तथा हस्तलिखित घोषणा विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपलोड नहीं करेंगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत नहीं होगा।

टिप्पणी:

- (1) यदि फोटो में आपका चेहरा अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/फैली हुई हो तो उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
- (2) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो/ हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान/ हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवार यह जांच लें कि इमेज स्पष्ट हैं तथा सही तरीके से अपलोड की गई हैं। यदि फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो उम्मीदवार आवेदन को संपादित करें तथा आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने से पहले फोटो अथवा हस्ताक्षर पुनः अपलोड करें।
- (3) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सिस्टम से प्राप्त प्रिंटआउट निकाल लें।